



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1979/वैशाख 8, 1901

No. 131] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1979/VAISAKHA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1979

सा. का. नि. 272 (अ).—केंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर लोह और इस्पात कम्पनी (पुनर्गठन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1978 (1978 का 18) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 13 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

1. बंशिका नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का नाम पब्लिक सेक्टर लोह और इस्पात कम्पनी (पुनर्गठन) और प्रकीर्ण उपबंध (समावृत्त शेयर पूंजी का उपान्तरण) आदेश, 1979 है।

(2) यह (1) इंडियन कम्पनी, मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड और नेशनल मिनेरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में। मई, 1978 को और से, तथा (2) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड के संबंध में 30 अप्रैल, 1979 को और से प्रवृत्त होंगे।

2. इंडियन कम्पनी और की समावृत्त शेयर पूंजी का उपान्तरण.—इंडियन कम्पनी, भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, मेटलर्जिकल और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड और नेशनल मिनेरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की समावृत्त शेयर पूंजी में, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन शेयरों, उपक्रमों या स्थावर सम्प-

त्तियों के अन्तरण के परिणामस्वरूप, इसके नीचे विनिर्दिष्ट रूप में, यथास्थिति, कमी या वृद्धि कर दी जाएंगी अर्थात् :—

(1) इंडियन कम्पनी :

इंडियन कम्पनी की समावृत्त शेयर पूंजी में 77,77,03,000 रु. (सत्तहत्तर करोड़, सत्तहत्तर लाख तीन हजार रुपये) की कमी कर दी जाएगी और इस कमी का प्रभावी बनाने के लिए उसके, प्रत्येक 1000 रु. (एक हजार रुपये) अधिक मूल्य के 7,77,703 (सात लाख सत्तहत्तर हजार सात सौ तीन) शेयर, जिनकी सं. 1,90,25,348 से 1,98,03,050 तक हैं (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) रद्द कर दिए जाएंगे।

(2) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड :—

कम्पनी की समावृत्त शेयर पूंजी में 12,70,80,000 रु. (बारह करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) की वृद्धि की जाएगी और इस वृद्धि का प्रभावी बनाने के लिए भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड अपने प्रत्येक 1000 रु. (एक हजार रुपये) अधिक मूल्य के 1,27,080 (एक लाख सत्ताईस हजार अस्सी) शेयर 31 जुलाई, 1979 को या उससे पूर्व केंद्रीय सरकार को निगमित करेंगी।

(3) मेटलर्जिकल और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड

कम्पनी को समावृत्त शेयर पूंजी में 2,01,48,000 रु. (दो करोड़ एक लाख अठ्ठासी हजार रुपये) की वृद्धि की जाएगी और इस वृद्धि का प्रभावी बनाने के लिए मेटलर्जिकल और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड अपने, प्रत्येक 1000 रु. (एक हजार रुपये) अधिक

मूल्य के, 20,148 (बीस हजार एक सौ अड़तालीस) शेयर 31 जुलाई, 1979 को या उससे पूर्व केन्द्रीय सरकार को निर्गमित करेगी।

(4) नेशनल मिनेरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

कम्पनी की समाप्त शेयर पूंजी में 30,70,31,000 रु. (तीस करोड़, सत्तर लाख इकतीस हजार रुपए) की कमी कर दी जाएगी और इस कमी को प्रभावी बनाने के लिए उसके प्रत्येक 1000 रु. (एक हजार रुपए) अधिक मूल्य के 3,07,031 (तीन लाख सात हजार इकतीस) शेयर, जिनकी सं. 688173 से 995203 तक हैं (जिस में ये दोनों सम्मिलित हैं) रद्द कर दिए जाएंगे।

[सं. 6(100)/78-एस. ए. आई. प्ल.-1]

एस. एन. अचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

ORDER

New Delhi, the 28th April, 1979

G.S.R. 272(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Act, 1978 (16 of 1978) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions (Modification of Paid-up Share Capital) Order, 1979.

(2) It shall come into force, (i) on and from the 1st May, 1978, in relation to the Integral Company, the Metallurgical and Engineering Consultants (India) Limited and the National Mineral Development Corporation Limited; and (ii) on and from the 30th April, 1979, in relation to the Bharat Refractories Limited.

2. Modification of paid-up share capital of Integral Company etc.—The paid-up share capital of the Integral Company, the Bharat Refractories Limited, the Metallurgical and Engineering Consultants (India) Limited and the National Mineral

Development Corporation Limited shall stand reduced or as the case may be, increased as a result of transfer of shares, undertakings or immovable properties under the provisions of the said Act, as specified hereunder; namely :—

(i) Integral Company :

The paid-up share capital of the Integral Company shall stand reduced by Rs. 77,77,03,000 (Rupees seventy-seven crores, seventy-seven lakhs and three thousand) and, to give effect to this reduction, 7,77,703 (seven lakhs, seventy-seven thousand seven hundred and three) of its shares of the face value of Rs. 1000 (Rupees one thousand) each bearing Nos. from 19025348 to 19803050 (both inclusive) shall stand cancelled.

(ii) Bharat Refractories Limited :

The paid-up share capital of the Company shall stand increased by Rs. 12,70,80,000 (Rupees twelve crores, seventy lakhs and eighty thousand) and, to give effect to this increase, the Bharat Refractories Limited shall issue 1,27,080 (one lakh, twenty seven thousand and eighty) of its shares of the face value of Rs. 1000 (Rupees one thousand) each to the Central Government on or before the 31st July, 1979.

(iii) Metallurgical and Engineering Consultants (India) Limited.

The paid-up share capital of the Company shall stand increased by Rs. 2,01,48,000 (Rupees two crores, one lakh and forty-eight thousand) and, to give effect to this increase, the Metallurgical and Engineering Consultants (India) Limited shall issue 20,148 (twenty thousand, one hundred and forty eight) of its shares of the face value of Rs. 1000 (One thousand) each to the Central Government on or before the 31st July, 1979.

(iv) National Mineral Development Corporation Limited.

The paid-up share capital of the Company shall stand reduced by Rs. 30,70,31,000 (Rupees thirty crores, seventy lakhs and thirty one thousand) and, to give effect to this reduction, 3,07,031 (three lakhs, seven thousand and thirty-one) of its shares of the face value of Rs. 1000 (Rupees one thousand) each bearing Nos. from 688173 to 995203 (both inclusive) shall stand cancelled.

[No. 6(100)/78-SAIL-I.]

S. N. ACHARYA, Jt. Secy